



KRISHANA PHOSCHEM LIMITED

(An ISO 9001:2015 Certified Company)

Date: 09.08.2025

To,

National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051

Dear Sir / Madam

Sub: Submission of Newspaper Cutting of Annual General Meeting (AGM), Information on E-Voting & Record Date Notice

With reference to above captioned subject, please find enclosed newspaper advertisement published in following newspapers on August 09, 2025: Financial Express (English) and Business Remedies (Hindi Edition) both having electronic edition intimating about the Notice of the 21st Annual General Meeting, E-voting and Record Date for Dividend to Shareholders of the company to be held through Video Conferencing / Other Audio-Visual Means for the financial year 2024-25

The same will also be available on the website of the Company: www.krishnaphoschem.com

This is for your information and record.

For Krishana Phoschem Limited

ANIL
SHARMA
Date: 2025.08.09
13:51:15 +05'30'

(Anil Sharma) Company Secretary

Registered off.: Wing A/2, 1st Floor, Ostwal Heights, Urban Forest, Atun Bhilwara 311802 Works: AKVN Industrial Area, Meghnagar-457779, Distt.Jhabua(M.P.)Ph.77730 01157, 92570 11857

FINANCIAL EXPRESS

Continue From Previous Page ...

Final Demand:

A Summary of the final demand as per NSE as on Bid/Issue closing date at different Bid Price is as under:

Sr. No.	Rate	Sum Quantity	Cumulative Total	Cumulative % to Total
1	97	61,200	61,200	0.65
2	98	7,200	68,400	0.73
3	99	2,400	70,800	0.75
4	100	21,600	92,400	0.98
5	101	9,600	1,02,000	1.08
6	102	7,200	1,09,200	1.16
7	103	93,19,200	94,28,400	100.00
8	CUTOFF 103	93,19,200	94,28,400	100.00
	Total	94,28,400	94,28,400	100.00

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange-NSE on Thursday, August 07, 2025.

A. Allotment to Individual Investors (After Rejection) (including ASBA application):

The Basis of Allotment to the Individual Investor Bidders, who have bid at cut-off or at the Issue Price of ₹ 103 per Equity, was finalized in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 0.98 times. The total number of Equity Shares allotted in Individual Investors Bidders category is 17,18,400 Equity Shares to 716 successful applicants.

The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	allo	tion of ttees to licants	Total No. of shares allocated/allotted
17,18,400	716	100.00	17,18,400	100.00	17,95,200	1	1	17,18,400
Grand Total	716	100.00	17,18,400	100.00	17,95,200	1	1	17,18,400

B. Allotment to Non-Institutional upto 10 lacs (After Rejection) (including ASBA application):

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders, who have bid at cut-off or at the Issue Price of ₹ 103 per Equity, was finalized in consultation with NSE This category has been subscribed to the extent of 1.32 times. The total number of Equity Shares allotted in Non-Institutional Bidders category is 2,84,400 Equity Shares to 46 successful applicants. (includes spillover of 25,200 Equity shares from Individual Investor category).

The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Ration of allottees to applicants		Total No. of shares allocated/allotted	
3,600	17	24.64	61,200	16.29	0	1	1	61,200	
4,800 4,800	17 1200 ADDITIONAL SHARE SHARE FOR CATEGORY 4800	24.64	81,600	21.73	5774	5	1 17	61,200 6,000	
6,000	26	37.68	1,56,000	41.53	17660	1	1	93,600	
6,000	VA.00-00	1200	i unampanno i	MACASAS .	CE PO-SONIOS	[XA .		AWCCOASSAG	
6,000	ADDITIONAL SHARE FOR CATEGORY 6000					15	26	18,000	
7,200	2	2.90	14,400	3.83	2038	1	1	9,600	
8,400	4	5.80	33,600	8.95	5434	1	1	19,200	
9,600	3	4.35	28,800	7.67	5094	1	1	14,400	
9,600	1200 ADDITIONAL SHARE FOR CATEGORY 9600			70.0653.11	(3)	1	3	1,200	
Grand Total		100.00	375600	100.00	36000			284400	

C. Allotment to Non-Institutional above Rs. 10 lacs (After Rejection) (including ASBA application):

KRISHANA PHOSCHEM LIMITED

CIN: L24124RJ2004PLC019288, Regd. Off.: Wing A/2, 1st Floor, Ostwal Heights, Urban Forest,

Atun Bhilwara 311802 Rajasthan, Ph.: 01482-294582 Website- www.krishnaphoschem.com, Email- secretarial@krishnaphoschem.com

NOTICE OF 21st ANNUAL GENERAL MEETING,

E- VOTING AND RECORD DATE

Notice is hereby given that the 21st Annual General Meeting ('AGM') of Krishana Phoschem Limited will be held on Tuesday, the 02nd September 2025 at 04:30 p.m. (IST) through video conferencing ("VC") / other Audio Video Means ('OAVM") without presence of physical quorum to transact the business as set

In compliance with the Circulars, electronic copies of the Notice of the 21st AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25, have been sent to all members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participants (DPs). These documents also be available on the website of the Company at www.krishnaphoschem.com and on the website of National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.nseindia.com. The dispatch of Notice of the AGM through emails has been completed on

Pursuant to regulation 42 of SEBI (Listing obligation and disclosure requirement), 2015 the Company has fixed the 26st August 2025 as the Record date/cut-off date for the purpose of determining members

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system provided by National Securities Depository Limited (NSDL) ('remote e-voting'). The facility of voting will also be made available during the AGM and those members who have not cast their vote on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A Person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owner maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., 26th August, 2025, will only be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the Annual General Meeting. The e-voting period commences on Saturday, August 30, 2025 (9.00 a.m. IST) and ends on Monday, September 01, 2024 (5.00 p.m. IST). During this period, Members may cast their vote electronically. The

Members are provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by National Securities Depository Limited. Members may access the platform to attend the AGM through VC at www.evoting.nsdl.com by using the remote e-voting credentials. The link for the AGM will be available in the member's login where the "Event" and the "Name of the company" can be selected. The Members who cast their votes by remote e-voting prior to the date of AGM may also attend the AGM but shall not

Detailed procedure of remote e-voting / e-voting and attending the AGM through VC/ OAVM has been provided in the notice of AGM. Any person who becomes shareholder of the company after sending the

notice of the AGM, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in.

However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting then the existing user ID and

The Board of Directors has appointed Mr. Sourabh Bapna of M/s Sourabh Bapna & Associates, Practicing

Company Secretary as the Scrutinizer for conducting E-voting process in a fair and transparent manner.

In case of any queries, members may refer the Frequently Asked Question (FAQs) and e-voting user manual for shareholders available at the above website of the www.evoting.nsdl.com. For any grievance/

queries relating to e-voting, members are requested to contact Mr. Anil Sharma, Company Secretary, Krishana Phoschem Limited at Registered Office: Wing A/2, 1st Floor, Ostwal Heights, Urban Forest, Atun

Bhilwara 311802 Email:secretarial@krishnaphoschem.com, Tel:01482-294582.

eligible for e-voting in the ensuing AGM and to receive dividend on equity shares, if declared.

in the Notice of AGM.

08th August, 2025.

e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.

be entitled to cast their vote again.

password can be used for casting vote.

Place: Bhilwara

Dated: 08/08/2025

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Bidders above Rs. 10 lacs, who have bid at cut-off or at the Issue Price of ₹ 103 per Equity, was finalized in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 1.07 times. The total number of Equity Shares allotted in Non-Institutional Bidders category is 5,70,000 Equity Shares to 16 successful applicants (includes spillover of 51,600 Equity shares from Individual Investor category). successful applicants.

The category-wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Ration of allottees to applicants		37.000.77.72	
10,800	6	37.50	64,800	10.59	39,927	1	1	57,600	
10,800	1,200 ADDITIONAL SHARE FOR CATEGORY	į			-4	3	6	3,600	
18,000	1	6.25	18,000	2.94	13,309	1	1	16,800	
19,200	1	6.25	19,200	3.14	14,418	1	1	18,000	
24,000	9	6.25	24,000	3.92	18,855	- 1	1	22,800	
30,000	9	6.25	30,000	4.90	24,400	- 1	1	27,600	
43,200	1	6.25	43,200	7.06	36,600	1	1	40,800	
57,600	1	6.25	57,600	9.41	49,909	1	1	54,000	
86,400	3	18.75	2,59,200	42.35	2,29,582	1	1	2,37,600	
86,400	1200 ADDITIONAL SHARE FOR CATEGORY					2	3	2,400	
96,000	1	6.25	96,000	15.69	85,400	1	1	88,800	
Grand Total	16	100.00	6,12,000	100.00	5,12,400	i i	4	5,70,000	

D. Allotment to Market Maker:

The Registrar informed that in this category 1 valid application for 2,73,600 Shares were received against 2,73,600 Equity Shares reserved for this category resulting in subscription of 1 time.

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Ration of allottees to applicant		Total No. of shares Allocated/allotted
2,73,600	1	100.00	2,73,600	100.00	2,73,600	1	1	2,73,600
Grand Total	1	100.00	2,73,600	100.00	2,73,600			2,73,600

E. Allotment to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (After Rejection):

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of ₹ 103 per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with NSE. This category has been subscribed to the extent of 1.00 time of QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 10,22,400 Equity Shares, which were allotted to 6 successful Applicants.

Category	Fis/Banks	MF's	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI	VCF	TOTAL
QIB	5	659		4,23,600	2,17,200	3,81,600		10,22,400 *

*The initial subscription in the QIB (excluding Anchor Investors) category was 0.68 times. 6,96,000 Equity Shares. However, due to lack of adequate Equity Shares in QIB Category the balance deficit of 3,26,400 Equity Shares has been shifted to Underwriters category.

The Board Meeting of our Company on Thursday, August 07, 2025has taken on record the Basis of Allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being NSE and has allotted the Equity Shares to various successful Bidders. The Allotment Advice-cum- refund intimation is being dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, the instructions to the Self Certified Syndicate Banks for unblocking of funds transfer to Public issue Account has been issued on Thursday, August07, 2025. In case the same is not received within four days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares Allotted to the successful Allottees is being credit on Friday, August 08, 2025 to the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from NSE, and the trading is expected to commence on or about Monday, August 11, 2025.

Note: All capitalised terms used and not specifically defined herein shall have the same meaning as ascribed to them in the Prospectus.

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the Allotment made have been hosted on the website of Registrar to the Issue, MUFG Intime India Private Limited at www.in.mpms.mufg.com All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole applicant. Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, name of the Member of the Syndicate, place where the bid was submitted and payment details at the address given below:

MUFG Intime India Private Limited

(Formerly known as Link Intime India Private Limited)

C/101, Embassy 247, L.B.S Marg, Vikhroli (West) - 400 083, Maharashtra, India

Telephone: +91 810 811 4949 Facsimile: +91 22 4918 6060 E-mail: bhadora.ipo@linkintime.co.in

Investor grievance e-mail: bhadora.ipo@linkintime.co.in

Website: www.in.mpms.mufg.com Contact Person: Shanti Gopalkrishnan SEBI Registration No.: INR000004058 CIN: U67190MH1999PTC118368

> For Bhadora IndustriesLimited On Behalf of the Board of Directors Shashank Bhadora

Place: Indore Date: August 08, 2025

Chairman & Managing Director THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF BHADORA INDUSTRIES LIMITED

Bhadora Industries Limited has filed the Prospectus dated August 07, 2025 with Registrar of Companies. The Prospectus shall be available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the BRLM to the issue at www.unistonecapital.com and website of NSE at www.nseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 29 of the Prospectus.

The Equity Shares offered in the issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.

JAI BALAJI INDUSTRIES LIMITED Registered Office: 5, Bentinck Street, Kolkata - 700 001

Phone: (033) 2248-9808, Fax: (033) 2243-0021

Email: jaibalaji@jaibalajigroup.com, Website: www.jaibalajigroup.com

CIN: L27102WB1999PLC089755

Standalone

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025.

(₹ in Crores)

Consolidated

			Stant	aaione		Consolidated					
07 <u>9</u> 917		Quarter ended			Year Ended		Year Ended				
SI. No.	Particulars	Particulars 30.06.25 31.03.2025		30.06.2024	31.03.2025	30.06.2025	31.03.2025	30.06.2024	31.03.2025		
NO.	NESSELLISENEMENTER	(Un-Audited)	(Audited)	(Un-Audited)	(Audited)	(Un-Audited)	(Audited)	(Un-Audited)	(Audited)		
1 2	Total income from operations Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,373.12 94.68	1,608.23 108.34	1,727.81 287.29	6,418.46 777.99	1,373.12 94.68	1,608.23 108.34	1,727.81 287.29	6,418.46 777.99		
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	94.68	108.34	287.29	777.99	94.68	108.34	287.29	777.99		
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	70.55	75.48	208.82	557.88	70.55	75.48	208.82	557.88		
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)	70.55	75.92	208.82	558.32	70.55	75.92	208.82	558.32		
6 7 8	Equity Share Capital Other Equity Earnings Per Share (EPS) (of ₹ 2/- each) (not annualised)	182.45	182.45	177.45	182.45 1,942.39	182.45	182.45	177.45	182.45 1,942.39		
	(a) Basic (in ₹)(b) Diluted (in ₹)	0.77 0.77	0.83 0.83	12.10 11.76	6.25 6.18	0.77 0.77	0.83 0.83	12.10 11.76	6.25 6.18		

NOTE:

Place: Kolkata

- a) The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges for the first guarter ended 30th June, 2025 under Regulation 33 of the SEBI (Lisiting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results for the first quarter ended 30th June, 2025 are available on the Stock Exchange websites viz. www.nseindia.com, www.bseindia.com and on the Company's Website.
- b) The figures for the guarter ended March 31, 2025 represents the difference between audited figures in respect of the full financial year ended March 31, 2025 and the unaudited published figures of nine months ended December 31, 2024.
- c) The above Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 08.08.2025.

d)Figures for the previous period/year have been re-grouped/re-arranged whereever necessary, to make them comparable.



FOR JAI BALAJI INDUSTRIES LIMITED

Aditya Jajodia Chairman & Managing Director DIN: 00045114

By Order of the Board of Directors For Krishana Phoschem Limited Sd/-(Anil Sharma)

Company Secretary

epaper.financialexpress.com

Date: 8th August, 2025

New Delhi

'हर बहन की पहचान, हर रिश्ते की शान-रक्षाबंधन पर कल्याण ज्वैलर्स की ओर से राखी गिफ्टिंग'

बिज्नेस रेमेडीज/नई दिल्ली

रक्षाबंधन भाई-बहन के अनमोल रिश्ते का उत्सव है। राखी बांधने और स्नेहभरे उपहारों के आदान-प्रदान से यह त्योहार प्यार, सुरक्षा और जीवनभर निभाए जाने वाले वादों की याद दिलाता है। जहाँ राखी और मिठाइयाँ पारंपरिक हैं, वहीं सोच-समझकर चुना गया उपहार इस मौके को और यादगार बना देता है। और आभूषणों से बेहतर उपहार क्या हो सकता है-एक ऐसा खजाना जो व्यक्तिगत भी है और सदाबहार भी, जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ बयां कर देता है। चाहे आपकी बहन बोल्ड और ग्लैमरस हो, शांत और आध्यात्मिक, या इन दोनों के बीच कहीं हो-कल्याण ज्वैलर्स में हर व्यक्तित्व को दर्शाने वाला खास आभूषण मौजूद है। रोज़मर्रा की नाजुक ज्वैलरी से लेकर स्टेटमेंट



असलियत और आपके रिश्ते की गहराई को सलाम करता है। इस रक्षाबंधन पर उपहार ऐसा दें जो उसकी पहचान और आपकी बढ़ती हुई मोहब्बत को झलके। क्योंकि सबसे अच्छे उपहार सिर्फ पहने नहीं जाते-बल्कि याद रखे जाते हैं।

आपकी बहन की शान के लिए शाही स्पर्श : अपनी बहन की खुशियों को और बढ़ाएँ इस आकर्षक ओपन बैंगल से, जिसमें जुड़वां नीले नीलम जैसे पत्थर हैं, चारों ओर नाजुक हीरों से सजे। इसका मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन इसे उत्सव से लेकर रोजाना पहनावे तक हर मौके के लिए खास बनाता है।

उस बहन के लिए जो है। निडर, रंगीन और खुबसूरत : फ्यूशिया पिंक, शाही हरे और चमकते पत्थरों की आभा से सजा यह शानदार बैंगल अपने आप में एक उत्सव है। इसका स्टेटमेंट सेंटरपीस और बारीक नक्काशी इसे रक्षाबंधन जैसे खास मौकों के लिए एकदम उपयुक्त बनाते हैं।

आपको राह दिखाने वाली बहन के लिए स्वर्ण आशीर्वाद : भगवान गणेश की दिव्य उपस्थिति से सजे, ये टेंपल-स्टाइल गोल्ड झमके परंपरा, गरिमा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक हैं। रुबी जैसे लाल मोतियों और सदाबहार मोटिफ्स से सजे ये झमके पावन सुंदरता व स्त्री शक्ति बिखेरते हैं। नवरत्न : नौ रत्न, एक अटूट **बंधन** : नवरत्न ब्रेसलेट-

और गहन प्रतीकवाद में हैं–में नौ शक्तिशाली रत्न हैं, जो दिव्य शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। चिकने सुनहरे फ्रेम में जड़ा यह आधुनिक रूप फैशन और अध्यात्म का बेहतरीन संगम है।

उस बहन के लिए जो मानती है सादगी ही सबसे बड़ी पहचान: ये मिनिमलिस्टिक गोल्ड और डायमंड स्टड्स शालीनता और आकर्षण का सुंदर मेल हैं। अनोखे ज्यामितीय डिज़ाइन और चमकते हीरों के गुच्छे इन्हें हर पहनावे-चाहे पारंपरिक हो या मॉडर्न-में एक खुबसूरती जोड़ते हैं।

उस बहन के लिए जो सचमुच सोने का ताज पहनने की हकदार है : दक्षिण भारत की मंदिर कला से प्रेरित यह बारीक नक्काशी वाला गोल्ड नेकलेस पारंपरिक मूर्तियों,

एंटीक फिनिश से सजा है। यह धरोहर, नजाकत और भारतीय शिल्पकला की भव्यता का उत्सव है।

उस बहन के लिए जो खेल में भी दमदार है और चमक में भी : यह बोल्ड चेन नेकलेस एक चिकने फुटबॉल-प्रेरित पेंडेंट के साथ आता है–आपकी बहन के खेल-प्रेम को स्टाइलिश सलाम। इसका यूनिसेक्स डिज़ाइन और खास अंदाज़ इसे खेलप्रेमी बहनों के लिए परफेक्ट बनाता है।

उस बहन के लिए जिसकी सोशल फ़ीड हमेशा परफ़ेक्ट रहती है: एस्थेटिक क्वीन बहनों के लिए बना यह नेकलेस सेट आधुनिक शान और सही मात्रा में चमक को परत-दर-परत पेश करता है। चाहे सेल्फी हो, ब्रंच डेट या कोई त्योहारी तस्वीर-यह हर बार मुख्य आकर्षण साबित होता है।

हिंदुजा समूह ने आनंद अग्रवाल को समूह अध्यक्ष-वित्त नियुक्त किया

बिजनेस रेमेडीज/मुंबई

हिंदुजा समूह ने आनंद अग्रवाल को समूह अध्यक्ष - वित्त नियुक्त किया है। लगभग तीन दशक के अनुभव के साथ, अग्रवाल ने कृषि इनपुट, बुनियादी ढाँचा (बिजली), एफएमसीजी, वित्तीय सेवा, सीमेंट, धातु और बैंकिंग भुगतान सेवा सहित कई क्षेत्रों में काम किया है। वह कॉर्पोरेट वित्त, ट्रेजरी, विलय एवं अधिग्रहण, पूंजी रणनीति और निवेशक संबंध के विशेषज्ञ हैं।

हिंदुजा समूह के समूह अध्यक्ष- मानव संसाधन, अमित चिंचोलिकर ने इस नियुक्ति पर अपनी टिप्पणी में कहा कि समूह के व्यवसायों के रणनीतिक विस्तार के चरण में प्रवेश करने के साथ, मज़बूत वित्तीय नेतृत्व बेहद महत्वपूर्ण है। कॉर्पोरेट वित्त और विलय एवं अधिग्रहण में आनंद का व्यापक अनुभव, साथ ही बड़े पैमाने पर वित्तीय रणनीतियों के प्रबंधन से जुड़ी नुकी क्षमता, समूह के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमें आशा है कि विकास के अगले चरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान होगा।हिंदुजा समूह के समूह अध्यक्ष (वित्त) आनंद अग्रवाल ने कहा कि मैं वित्तीय ढांचे को मज़बूत कर और समूह की रणनीतिक पहलों का समर्थन कर हिंदुजा समूह की निरंतर वृद्धि में योगदान देने के लिए तत्पर हूं। मैं



वित्तीय दक्षता बढ़ाने, पूंजी निवेश को अनुकूलतम बनाने और समृह की विस्तार योजनाओं का समर्थन पर ध्यान दूंगा। अग्रवाल ने बड़े अंतरराष्ट्रीय पीई फंडों, पेंशन फंडों और सॉवरेन वेल्थ फंडों से सफलतापूर्वक इक्विटी जुटाई है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कई उच्च-मूल्य वाले विलय एवं अधिग्रहण सौदों का भी नेतृत्व किया है। हिंदुजा समृह में शामिल होने से पहले, उन्होंने चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में काम किया। साथ ही वह टाटा पावर, पीपल कैपिटल पीई, एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज, आदित्य बिड्ला समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी लिमिटेड में नेतृत्व की भूमिका में रहे। वह चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सचिव, आईसीडब्ल्यूए और सीएफए हैं।

कृषि व्यवसाय में नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूपीएल लिमिटेड को क्लेरिवेट साउथ एशिया इनोवेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया

बिज़नेस रेमेडीज/मुंबई

सतत कृषि समाधान के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी कंपनी यूपीएल लिमिटेड को क्लेरिवेट साउथ एशिया इनोवेशन अवार्ड 2025 में एग्रीबिजनेस श्रेणी के अंतर्गत सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार समारोह 6 अगस्त 2025 को होटल आईटीसी मराठा, मुंबई में आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में नवाचार के क्षेत्र में भविष्य का निर्माण कर रहे संगठनों को सम्मानित करना है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब यूपीएल को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो कृषि क्षेत्र में नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने की उसकी प्रतिबद्धता को

क्लेरिवेट द्वारा यह पुरस्कार डर्वेंट स्ट्रेंथ इंडेक्स (Derwent Strength Index) और वैश्विक



पेटेंट डेटा पर आधारित गहन शोध के आधार पर प्रदान किया जाता है। मुल्यांकन प्रक्रिया में तकनीकी गहराई और व्यावसायिक प्रासंगिकता दोनों को मापा जाता है, जिसमें पेटेंट फाइलिंग गतिविधि और नवाचार के प्रभाव को शामिल किया जाता है। यूपीएल का लगातार बेहतर प्रदर्शन वैश्विक कृषि के लिए परिवर्तनकारी समाधान विकसित करने में उसकी नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। यूपीएल निरंतर उन्नत

तकनीकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, और सहयोगात्मक अनुसंधान में निवेश कर रहा है ताकि वैश्विक खाद्य सुरक्षा और जलवाय परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इस दिशा में यूपीएल के मजबूत और विस्तृत अनुसंधान कार्यक्रम अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो दुनिया भर के किसानों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट समाधान विकसित करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किए

गए हैं। ये कार्यक्रम अनेक क्षेत्रों और विशेषज्ञताओं को जोड़ते हैं, जहां अत्याधुनिक विज्ञान और किसान-केंद्रित नवाचार को एकीकृत किया गया है ताकि प्रभावशाली और टिकाऊ कृषि प्रगति संभव हो सके। यह मान्यता यूपीएल की अग्रणी एग्रीबिजनेस कंपनी के रूप में स्थिति को और मजबूत बनाती है। यूपीएल लिमिटेड के ग्लोबल हेड- आईपी, प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन और ओपनएजी आरएंडडी, डॉ. विशाल सोधा ने कहा कि क्लेरिवेट द्वारा एक बार फिर सम्मानित किए जाने पर हमें गर्व है। यह पुरस्कार नवाचार, सहयोग और प्रौद्योगिकी से कृषि में स्थिरता की पुनर्कल्पना करने के हमारे मिशन की पुष्टि करता है। हम अपने अभिनव समाधानों के साथ किसानों को सशक्त बनाने और पर्यावरण की रक्षा के

इस रक्षाबंधन भाई/बहन के लिए चुनें मोदीकेयर की रेंज में से खास तोहफा

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली

इस रक्षाबंधन अपने भाई/बहन को दें यादगार तोहफा!! आप अपने भाई की कलाई पर जो धागा बांधते हैं, वह एक परम्परा से कहीं बढ़कर है; यह आप दोनों के बीच के हर झगड़े, हर मुस्कान, हर मस्ती का प्रतीक है जो आप दोनों के अट्टट रिश्ते को परिभाषित करता है। रक्षाबंधन का यह मौका जीवन भर के लिए कुछ यादगार पल दे जाता है। तो इतने खास मौके पर आम तोहफा क्यों! इस साल अपने भाई/बहन के लिए कोई ऐसा तोहफा चुनें जो उनकी पर्सनेलिटी के साथ मैच करता हो। आपका भाई जरूरत से ज्यादा आपका ख्याल रखता है, या आपकी बहन जो हमेशा पलटवार के लिए तैयार रहती है या भाई-बहन जो मीम्स के जरिए बातचीत करते हैं, मोदीकेयर की रेंज में सभी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। तो अपने भाई/ बहन के लिए परफेक्ट तोहफा चुनें और रक्षाबंधन के इस मौके को हमेशा के लिए यादगार बना लें।

फॉरेस्ट नेक्टर, बाय मोदीवे- मोदीकेयर की एक पहल : फॉरेस्ट नेक्टर बाय मोदीवे (मोदीकेयर की एक पहल) स्किनकेयर से

स्किनकेयर

Modicare

कहीं बढ़कर है; यह त्वचा और बालों को पोषण देकर आपकी समग्र देखभाल को स्निश्चित करती है। प्यार और देखभाल के साथ बनाया गया यह कलेक्शन प्रकृति के बेहतरीन इन्ग्रीडिएन्ट्स एवं आधुनिक फॉर्मूला के साथ लक्जरी अनुभव प्रदान करता है। कॉफी की स्फूर्ति हो या ऑध की समृद्धि, या हाइएल्युरोनिक एसिड की हाइड्रेट करने की क्षमता, हर प्रोडक्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह आपके शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को पुनःजीवित कर देगा। इसका हर ऐप्लीकेशन आपकी समग्र देखभाल को सुनिश्चित करेगा।

कॉफी रेंजः एंटीऑक्सीडेन्ट से भरपूर कॉफी के साथ अपनी त्वचा की खास देखभाल करें। इस रेंज में कॉफी फोमिंग फेसवॉश से लेकर कॉफी बॉडी बटर तक शामिल हैं, जो आपकी त्वचा को रोजमर्रा के

तनाव से सुरक्षित रखते हैं। ये प्रोडक्ट आपकी त्वचा को

अनुभव पाने के लिए तैयार हो जाएं, जिसे 'वुड ऑफ द गॉड्स' के नाम से जाना जाता है। इस रेंज में ऑध फोमिंग फेस वॉश और ऑध बॉडी बटर जैसे प्रोडक्ट्स हैं जो स्पा जैसा अनुभव प्रदान कर आपके स्किनकेयर रूटीन को पूरी तरह से बदल देंगे। समृद्ध

वनस्पतियों के गुणों से भरपूर यह रेंज त्वचा

को नमी देकर कोमल बनाती है। कीमत रु

गहराई से पोषण एवं नमी प्रदान करते हैं, त्वचा की एनर्जी बढ़ाते हैं, और त्वचा को

चमकदार, जवां और कोमल बनाते हैं।

ऑध रेंज: ऑध की लक्जरी का सदाबहार

कीमत रु 1000 से शुरू।

इटेंस हाइड्रेशन हेयर केयर रेंजः हाइएल्युरोनिक एसिड और प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ अवयवों से भरपूर यह हेयर केयर रेंज बालों को नमी और पोषण प्रदान करती है। इसका हाइड्रेटिंग शैम्पू और कंडीशनर बालों को साफ कर मजबत बनाता है। हेयर ग्रोथ सीरम, हेयर मास्क और डीटैंगलिंग स्प्रे बालों को कोमल, मुलायम और मैनेजेबल बनाते हैं। कीमत रु 850 से शुरू।

नीलकंठ रॉक-मिनरल्स लिमिटेड

1000 से शुरू।

CIN: L14219RJ1988PLC062162 पंजीकृत कार्यालयः फ्लैट नं. 606, स्कीम चौपासानी जागीर, खसरा नं. 175/74, प्लॉट नं. 15/16 जोधपुर, राजस्थान-342001 ई-मेल: info@neelrock.com टेलिफोन: +0291-2631839

एतब् द्वारा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के साथ विनियम 47 के सोने और चांदी की कीमतों में अवासन शर्म कर चांचा वी जाती है कि कंपनी के विशेषक अंडल की बैठक शुरुवार, 14 अगस्त, 2026 को पलेंट संख्या 160, किया के विशेषक अंडल की बैठक शुरुवार, 14 अगस्त, 2026 को पलेंट संख्या 160, किया के प्रति के प् की जानी है. जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 30 जन. 2025 को समाघ तिमाही के लिए कंपनी के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणार पर विचार किया जाएगा और अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य मामले पर विचार किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से नीलकंठ रॉक-मिनरत्स लिमिटेड के लिए हस्ताक्षरकर्ता/-

बिजनेस रमेडीज/नई दिल्ली। मिलाजुला कारोबार हुआ। 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 1.01 लाख रुपए के करीब और चांदी की कीमत 1.15 रुपए प्रति किलो से नीचे आ गई है।

सोना व चांदी

OSTWAL

कृष्णा फोसकेम लिमिटेड

सीआईएन: L24124RJ2004PLC019288

पंजीकृत कार्यालयः विंग ए/2, 1st फ्लोर, ओस्तवाल हाइट्स,

अर्बन फारेस्ट, आदून, भीलवाड़ा, ३११८०२, फोन न.- ०१४८२-२९४५८२ ईमेल: secretarial@Krishnaphoschem.com वेबसाइट: www.Krishnaphoschem.com

21 वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और रिकॉर्ड तिथि की सूचना

बजे (IST) वीडियो कॉन्फ्रोसेंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो वीडियो मीन के माध्यम से भौतिक कोरम की उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी। जिसमे एजीएम की विस्तृत सचना में उल्लेखित व्यवसाय को सम्पादित किया जायेगा

कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 08 अगस्त, 2025 को कंपनी के सभी शेयरधारकों को भेजा गया है जिनके ई-मेल पता कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ पंजीकृत हैं। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतिलिपि कंपनी की वेबसाइट www.krishnaphoschem.com और www.nseindia.com और www.evoting.nsdl.com (ई-वोटिंग प्रदान करने वाली

सेबी के विनियमन 42 (लिस्टिंग बायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता), 2015 के अनुसार कंपनी ने 26 अगस्त 2025 को आगामी एजीएम में ई-वोटिंग के लिए योग्य सक्स्यों का निर्धारण करने और घोषित किए जाने पर इक्विटी शेयरों पर लाभांश प्राप्त करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि / कट-ऑफ तारीख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी के विनियम 44 (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार सदस्यों को 'बूरस्थ ई- मतदान' के लिए नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम के नेटिस में दिए गए सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है। सबस्यों के मतबान का अधिकार सोमवार, 26 अगस्त 2025 (कट-ऑफ तारीख) के अनुसार कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों के अनुपात में होगा।

ई-वोटिंग की अविध शनिवार, 30 अगस्त, 2025 (सुबह 9 बजे) (आईएसटी) से शुरू होगी और सोमवार 01 सितंबर, 2025 (शाम 5.00 बजे) (आईएसटी) समाप्त होगी । इस अविध के दौरान, सब्स्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। इसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल NSDL द्वारा

सबस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए डलेक्टॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सविधा प्रदान की जाती है। दूरस्थ ई-वोटिंग क्रेडेशियल्स का उपयोग करके सदस्य www.evoting.nsdl.com पर वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम के लिए लिंक सदस्य के लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां 'इवेंट' और 'कंपनी का नाम' चुना जा सकता है।

एजीएम के नोटिस बरस्थ ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया और एजीएम को वीसी/ओएवीएम के मध्यम उपस्थित हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो एजीएम का नोटिस भेजने के बाद कंपनी का शेयरधारक बन जाता है, वह evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए पहले से ही NSDL के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारक्षीं तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए मैसर्स सौरभ बापना एंड एसोसिएद्स के श्री सौरभ बापना, प्रैक्टिसंग कंपनी सचिव को स्क्रुटिनीज़र नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ के मामले में, सबस्य त्वरित पूछे जाने वाले प्रष्ठन (एफक्यूज) और ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का सन्दर्भ www.evoting.nsdl.com से ले सकते हे, ई-वोटिंग से मतबान के संबंध में किसी भी प्रश्न या शिकायतों के लिए, सबस्य श्री अनिल शर्मा, कंपनी सचिव, कृष्णा फोस्केम लिमिटेड से संपर्क करे. रजिस्टर्ड ऑफिस विंग ए/2, 1st फ्लोर, ओस्तवाल हाइट्स, अर्बन फारेस्ट, आदन, भीलवाडा, 311802, राजस्थान, ईमेल secretarial@krishnaphoschem.com, फोन: 01482-294582

> निदेशक मंडल के आदेश द्वारा कृष्णा फोसकेम लिमिटेड के लिए हस्ताक्षरित/-(अनिल शर्मा)

कामधेन लिमिटेड राजस्थान में ब्रांडेड कलर कोटेड शीट्स की विनिर्माण क्षमता को 30 प्रतिशत और मजबूत करेगा किया जा रहा है। क्षेत्र में लगातार खुबसूरत समाधान पेश कर रही

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर

कामधेनू लिमिटेड, ब्रांडेड टीएमटी बार के खुदरा बाजार में भारत के सबसे बड़े निर्माता और विक्रेता ने राजस्थान में अपने ब्रांड 'कामधेनु कलर मैक्स शीट' की बाजार हिस्सेदारी और उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए आज उसकी निर्माण क्षमता में 30 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा

बिजनेस रेमेडीज/

नई दिल्ली/आईएएनएस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को घरेलू

एलपीजी की बिक्री पर हुए घाटे के लिए

तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन

कंपनियों आईओसीएल, बीपीसीएल और

एचपीसीएल को 30,000 करोड़ रुपए

ओएमसी के भीतर मुआवजे का वितरण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

द्वारा किया जाएगा। मुआवजे का भुगतान

12 किस्तों में किया जाएगा। सरकार के

अनुसार, यह महत्वपूर्ण कदम इन

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन

कंपनियों की वित्तीय स्थिति को बनाए

रखते हुए ग्लोबल एनर्जी मार्केट में उतार-

चढ़ाव से उपभोक्ताओं की रक्षा करने की

प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन

कंपनियों, आईओसीएल, बीपीसीएल और

एचपीसीएल द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडर

उपभोक्ताओं को रेगुलेटेड कीमतों पर

की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 2024-25 के

दौरान उच्च स्तर पर बनी रहेंगी और आगे

कैबिनेट नोट के अनुसार, एलपीजी

सप्लाई किए जाते हैं।

कैबिनेट ने एक बयान में कहा कि

का मुआवजे देने को मंजूरी दे दी।



भी ऊंची बनी रहेंगी। हालांकि,

उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी

कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के

लिए, लागत में वृद्धि का भार घरेलू

एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया,

जिससे तीनों तेल विपणन कंपनियों को

कहा गया है, 'घाटे के बावजूद,

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन

कंपनियों ने देश में किफायती कीमतों पर

घरेलू एलपीजी की निरंतर आपूर्ति

सुनिश्चित की है।' इस क्षतिपूर्ति से तेल

विपणन कंपनियां कच्चे तेल और

एलपीजी की खरीद, ऋण चुकाने और

अपने पूंजीगत व्यय को बनाए रखने जैसी

अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगी,

जिससे देश भर के घरों में एलपीजी

सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित

होगी। कैबिनेट के बयान के अनुसार, यह

कदम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी

प्रमुख योजनाओं के तहत आने वाले

उपभोक्ताओं सहित घरेलू एलपीजी के

सभी उपभोक्ताओं को क्लीन कुकिंग

फ्यूल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के

उद्देश्य की पुष्टि करता है। इस बीच,

पीएमयूवाई के तहत देश भर में 1 जुलाई

तक कम से कम 10.33 करोड़ एलपीजी

गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं।

जानकारी के अनुसार कैबिनेट नोट में

भारी नुकसान हुआ।

की। नई रणनीति हाल के दिनों में क्षेत्र में प्राप्त उत्पादों की बढ़ी मांग के अनुरूप विकसित की गई है। कामधेन लिमिटेड का इरादा इस मांग को पूरा करने और एक वर्ष में क्षमता को 5000 एमटी से 6500 एमटी

कैबिनेट ने घरेलू एलपीजी में हुए नुकसान के लिए ओएमसी

को 30,000 करोड़ रुपए के मुआवजे को दी मंजूरी

तक बढ़ाने का है। कंपनी की योजनाओं के बारे में कामधेनू लिमिटेड के निदेशक सुनील अग्रवाल ने कहा कि आज, कामधेनु कलर कोटेड शीट्स का उपयोग कई सरकारी और गैर-सरकारी परियोजनाओं में

बढ़ते आवास एवं इंफ्रास्ट्रक्वर क्षेत्र के कारण हमारे उत्पादों की मांग भी बडी है, इसे देखते हए, हम अपनी उच्च गुणवत्ता वाली कलर कोटेड शीट की उत्पादन क्षमता में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष कामधेनू कलर मैक्स रिहाइशी और औद्योगिक परियोजनाओं में रूफिंग व क्लैडिंग के लिए

है। ये शीट इंस्टॉल करने में आसान हैं और इसके इस्तेमाल से किसी भी प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में तेजी आती है। ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक कस्टमाइजेशन सुनिश्चित करने के लिए कामधेनू कलर मैक्स रेंज संबंधित उत्पाद भी मुहैया कराती है जैसे रेन वाटर सिस्टम, रेन गटर, क्रिम्पिंग कर्व, सैल्फड़िलिंग स्क्रू आदि।

(रुपए लाखों में)

CIN: L14101RJ1981PLC002419 पंजीकृत कार्यालय : 47/10, किरणपथ मानसरोवर, जयपुर राजस्थान-302020 बूरभाष:- 0294-2441666,2441777, फैक्स: +91-294-2440581 वेबसाइट:- www.jainmarmo.com, ईमेल:- jainmarmo_udr@yahoo.com 30, जून 2025 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम

जैन मार्मी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

विवरण	30 जून, 2025 को	30 जून, 2024 की	31 मार्च, 2025 को
	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
	(अनअंकेक्षित)	(अनअंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	44.44	106.89	225.65
अविध के लिए शुद्ध लाभ/(हानि), (कर, असाधारण या			
असाधारण वस्तुओं से पहले)	0.60	19.40	0.21
अविध के लिए कर से पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण			
और या असाधारण वस्तुओं के बाद)	0.60	19.40	0.21
अविध के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण			
और या असाधारण वस्तुओं के बाद)	0.36	14.44	-0.57
अविध के लिए कुल व्यापक आय (अविध के लिए			
(कर पश्चात) समावेशित लाभ/(हानि) और			
अन्य समावेशित आय (कर पश्चात)	0.36	14.44	-0.80
इक्विटी शेयर पूंजी	313.06	313.06	313.06
आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि			
को छोड़कर) जैसा कि पिछले वर्ष के			
लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में दिखाया गया है	-	-	83.08
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का अंकित मूल्य)			
(नियमित व अनियमित संचालन के लिए)			
१. मूल और तनुकृतः	0.01	0.46	-0.02
टिप्पणियां:			

(क) 30 जन, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त अनुअंकेक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और ७ अगस्त, २०२५ को आयोजित संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा अनमोदित किया गया है। ख) उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन २०१५ के विनियमन ३३ के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ

दायर तिमाही परिणामों के विस्तत प्रारूप का एक उद्धरण है। 30.06.2025 को समाप्त तिमाही के अनुअंकेक्षित परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.jainmarmo.com) पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए



जैन मार्मी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए हेमलता डांगी

निदेशक मंडल की ओर से

• • • • •

स्थान- भीलवाडा तिथि- 08/08/2025

कम्पनी सचिव

कंपनी सचिव